



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 2006/अग्रहायण 1, 1928

No. 566]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2006/AGRAHAYANA 1, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2006

सं. 114/2006-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 719(अ).- सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उप-धारा (3), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उपधारा (2क) और जित्त अधिनियम, 1994(1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3, 4 और 5 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2005-सीमाशुल्क (गै.टै.) तारीख 2 मई, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) में वर्ष 2005 के मई माह के पांचवें दिन से वर्ष 2006 के जुलाई माह के चौदहवें दिन तक, निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना में, शीर्षक “सामान्य टिप्पणी” के तहत पैराग्राफ 2 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“2क. उक्त अनुसूची में अन्य बातों के होते हुए भी सभी कलात्मक एवं हस्तशिल्प मर्दों को शीर्षक कलात्मक/हस्तशिल्प (अंगीभूत सामग्री) के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि संगत अध्यायों में उल्लिखित है ”

[फा. सं. 609/54/2006-डीबीके]

डॉ. एम. सुब्रमण्यम, उप-सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 36/2005-सीमाशुल्क (गै.टै.) को दिनांक 2 मई, 2005 की सा.का.नि. सं. 267(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा इसका दिनांक 18 नवम्बर, 2005 सं. सा.का.नि. 675(अ), के जरिए दिनांक 18 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. 102/2005-सीमाशुल्क, (गै.टै.) के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 2006

No. 114/2006-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 719(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), sub-section (2A) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and sub-section 3 of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) and in pursuance of rule 3, 4 and 5 of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, the Central Government, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.36/2005-CUSTOMS (N.T.), dated the 2nd May, 2005 (hereinafter referred to as the said notification), with effect from 5th day of May, 2005 to 14th day of July, 2006, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 under the heading “General Notes”, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“2A. Notwithstanding anything contained in the said Schedule, all artware and handicraft items shall be classified under the heading of artware/handicraft (of constituent material) as mentioned in the relevant chapters.”.

[F.No. 609/54/2006-DBK]

Dr. M. SUBRAMANYAM, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 36/2005-CUSTOMS (N.T.) was published in the Gazette of India vide number G.S.R.267(E), dated the 2nd May, 2005 and was last amended vide notification No.102/2005- Customs (N.T.), dated the 18th November, 2005 vide number G.S.R. 675(E), dated the 18th November, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2006

सं. 115/2006-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 720(अ).-सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उप-धारा (3), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उपधारा (2क) और वित्त अधिनियम, 1994(1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3, 4 और 5 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 81/2006-सीमाशुल्क (गै.टै.), तारीख 13 जुलाई, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) में वर्ष 2006 के जुलाई माह के पन्द्रहवें दिन से निम्नलिखित संशोधन करती है. नामतः :-

(1) उक्त अधिसूचना में, शीर्षक “शर्तों” के तहत पैराग्राफ 2 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“2क. उक्त अनुसूची में अन्य बातों के होते हुए भी सभी कलात्मक एवं हस्तशिल्प मर्दों को कलात्मक/हस्तशिल्प शीर्षक (अंगीभूत सामग्री) के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि संगत अध्यायों में उल्लिखित है।”

(2) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, -

(क) अध्याय 61 में, टैरिफ मर्दों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मर्दों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
“6101	पुरुषों और लड़कों के ओवर कोट, कार कोट, केप, चोगा, ऐनोरेक (स्की जैकेटें सहित) विंड-चीटर, विंड जैकेट और ऐसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6103 के अंतर्गत आती हैं					
610101	सूत के	नग	7%	37	2.2%	11.7
610102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	7.5%	35	2.1%	9.8
610103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
610104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	55	3.4%	26.8
610105	नोइल रेशम के	नग	7%	14	3.4%	6.8
610106	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
610107	अन्यों के	नग	7%	30	2.1%	9
6102	स्त्रियों और लड़कियों के ओवर कोट, कार कोट, केप, चोगा, ऐनोरेक (स्की जैकेटें) विंड-चीटर, विंड जैकेट और ऐसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6104 के अंतर्गत आती हैं					
610201	सूत के	नग	7%	37	2.2%	11.7
610202	सूत और मानव निर्मित तंतु के वाले मिश्रण	नग	7.5%	35	2.1%	9.8
610203	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
610204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	55	3.4%	26.8

610205	नोइल रेशम के	नग	7%	14	3.4%	6.8
610206	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
610207	अन्यों के	नग	7%	30	2.1%	9
6103	पुरुषों और लड़कों के सूट, समाप्ति, जैकेट, ब्लेजर, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरआल, ब्रीच और निक्कर (तरण परिधान से भिन्न), बुने या क्रोशियाकृत					
610301	सूट, जोड़ा, जैकेट, ब्लेजर, ट्राउजर					
61030101	सूट के	नग	7%	37	2.2%	11.7
61030102	सूट और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	35	2.1%	9.8
61030103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
61030104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	55	3.4%	26.8
61030105	नोइल रेशम के	नग	7%	14	3.4%	6.8
61030106	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
61030107	अन्यों के	नग	7%	30	2.1%	9
610302	अन्य					
61030201	सूट के	नग	7%	31	2.2%	9.8
61030202	सूट और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	32	2.1%	9
61030203	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
61030204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
61030205	रोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
61030206	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
61030207	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
6104	स्त्रियों और लड़कियों के सूट, जोड़ा, जैकेट, ब्लेजर, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरआल, ब्रीच और निक्कर (तरण परिधान से भिन्न), बुने या क्रोशियाकृत					
610401	सूट, जोड़ा, जैकेट, ब्लेजर, ट्राउजर					
61040101	सूट के	नग	7%	37	2.2%	11.7

61040102	सूत और मनव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	35	2.1%	9.8
61040103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
61040104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	55	3.4%	26.8
61040105	नोइल रेशम के	नग	7%	14	3.4%	6.8
61040106	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
61040107	अन्यों के	नग	7%	30	2.1%	9
610402	अन्य					
61040201	सूत के	नग	7%	31	2.2%	9.8
61040202	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	7.5%	32	2.1%	9
61040203	मानव निर्मित तंतु के	नग	8-1%	34	2.1%	8.9
61040204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
61040205	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
61040206	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
61040207	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
6105	पुरुषों और लड़कों की कमीजें, बुनी या क्रोशियाकृत					
610501	सूत के	नग	7%	31	2.2%	9.8
610502	सूत और मनव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	7.5%	32	2.1%	9
610503	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
610504	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
610505	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
610506	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
610507	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
6106	स्त्रियों और लड़कियों के ब्लाउज, कमीजें और कमीज-ब्लाउज,, बुनी या क्रोशियाकृत					
610601	सूत के	नग	7%	31	2.2%	9.8
610602	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	7.5%	32	2.1%	9
610603	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9

610604	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
610605	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
610606	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
610607	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
6107	पुरुषों और लड़कों के अंडरपैट, जांघिया, नाइटशर्ट, पाजामों, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और ऐसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत					
610701	नाइटशर्ट, पाजामा, बाथरोब, एवं ड्रेसिंग गाउन, जांघिए तथा ऐसी ही वस्तुएं					
61070101	सूत के	नग	7%	23	2.2%	7.3
61070102	सूत और मनव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	7.5%	24	2.1%	6.8
61070103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	27	2.1%	7
61070104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
61070105	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
61070106	ऊन के	नग	7%	30	2.7%	11.6
61070107	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
610702	अन्य (जांघिये और ऐसी ही वस्तुएं)					
61070201	सूत के	नग	7%	9	2.2%	2.9
61070202	सूत और मनव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	7.5%	10	2.1%	2.8
61070203	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	11	2.1%	2.9
61070204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	37	3.4%	18
61070205	रेशम रेशम के	नग	7%	13	3.4%	6.3
61070206	ऊन के	नग	7%	11	2.7%	4.3
61070207	अन्यों के	नग	7%	9	2.1%	2.7
6108	स्त्रियों और लड़कियों के स्लिप, पेटीकोट, जांघिया, पैंटी, रात्रि पोशाक, पाजामा, नेग्लिजीन, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और वैसे ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत					
610801	रात्रि पोशाक पाजामा, नेग्लिजीज बाथरोब और ड्रेसिंग गाउन, स्लिप्स, पेटीकोट्स और ऐसी ही वस्तुएं					

61080101	सूत के	नग	7%	23	2.2%	7.3
61080102	सूत और मनव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	7.5%	24	2.1%	6.8
61080103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	27	2.1%	7
61080104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	21
61080105	रोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
61080106	ऊन के	नग	7%	30	2.7%	11.6
61080107	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
610802	अन्य (जांघिए, पेंटीज और ऐसी ही वस्तुएं)					
61080201	सूत के	नग	7%	9	2.2%	2.9
61080202	सूत और मनव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	7.5%	10	2.1%	2.8
61080203	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	11	2.1%	2.9
61080204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	37	3.4%	18
61080205	नोइल रेशम के	नग	7%	13	3.4%	6.4
61080206	ऊन के	नग	7%	11	2.7%	4.3
61080207	अन्यों के	नग	7%	9	2.1%	2.7
6109	टी-शर्ट, सिंग्लेट और अन्य बनियान, बुनी या क्रोशियाकृत					
610901	सूत के	नग	7%	23	2.2%	7.3
610902	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	7.5%	24	2.1%	6.8
610903	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	27	2.1%	7
610904	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
610905	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
610906	ऊन के	नग	7%	30	2.7%	11.6
610907	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
6110	जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन, वेस्टकोट और ऐसी ही वस्तुएं, बुनी या क्रोशियाकृत					
611001	सूत के	नग	7%	53	2.2%	16.7
611002	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	7.5%	53	2.1%	14.8

611003	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	52	2.1%	13.5
611004	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	84	3.4%	40.8
611005	नोइल रेशम के	नग	7%	21	3.4%	10.2
611006	ऊन के	नग	7%	63	2.7%	24.3
611007	अन्यों के	नग	7%	53	2.1%	15.9
6111	छोटे बच्चों के वस्त्र और कपड़ों के उपसाधन, बुने या क्रोशियाकृत					
611101	सूत के	नग	7%	17	2.2%	5.3
611102	सूत और मानव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	7.5%	18	2.1%	5
611103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	27	2.1%	7
611104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	22	3.4%	10.7
611105	नोइल रेशम के	नग	7%	9	3.4%	4.4
611106	ऊन के	नग	7%	22	2.7%	8.5
611107	अन्यों के	नग	7%	17	2.1%	5.1
6112	ट्रैक सूट, स्की सूट और तरण परिधान, बुने या क्रोशियाकृत					
611201	सूत के	नग	7%	23	2.2%	7.2
611202	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	25	2.1%	7
611203	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	27	2.1%	7
611204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
611205	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.3
611206	ऊन के	नग	7%	30	2.7%	11.6
611207	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	7
6113	शीर्ष सं. 5903, शीर्ष सं. 5906 या शीर्ष सं. 5907 के बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक से निर्मित, वस्त्र					
611301	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4
611302	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
611303	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.5
611304	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4

611305	रोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
611306	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.5
611307	अन्यों के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7
6114	अन्य वस्त्र, बुने या क्रोशियाकृत					
611401	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4
611402	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
611403	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.5
611404	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4
611405	नोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
611406	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.5
611407	अन्यों के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7
6115	पैटी होज, टाइट, स्टार्किंग, मोजे और अन्य हौजरी, जिसके अंतर्गत बेरीकोस बेन्स के लिए स्टार्किंग और न लमे तल्लों के जुते आदि भी शामिल हैं, बुने या क्रोशियाकृत					
611501	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4
611502	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
611503	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.5
611504	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4
611505	नोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
611506	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.5
611507	अन्यों के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7
6116	वस्ताने, मिटन और मिट, बुने या क्रोशियाकृत					
611601	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4
611602	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
611603	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.5

611604	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4
611605	नोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
611606	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.5
611607	अन्यों के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7
6117	अन्य निर्मित कपड़ों के उपसाधन, बुने या क्रोशियाकृत, वस्त्रों के या कपड़ों के उपसाधनों के बुने या क्रोशियाकृत भाग					
611701	शॉल					
61170101	सूत के	नग	7%	30	2.2%	9.4
61170102	सूत और मनव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	31	2.1%	8.7
61170103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.8
61170104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	55	3.4%	26.7
61170105	रोइल रेशम के	नग	7%	14	3.4%	6.8
61170106	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
61170107	अन्यों के	नग	7%	30	2.1%	9
611702	स्कार्फ, मफलर और टाई	नग				
61170201	सूत के	नग	7%	23	2.2%	7.3
61170202	सूत और मनव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	नग	7.5%	24	2.1%	6.8
61170203	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	27	2.1%	7
61170204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
61170205	रोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
61170206	ऊन के	नग	7%	30	2.7%	11.6
61170207	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
611703	अन्य					
611701	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4
611702	सूत और मनव निर्मित तंतु वाले मिश्रण के	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
611703	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.6
611704	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4
611705	रोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
611706	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.6
611707	अन्यों के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7

(ख) अध्याय 62 में, टैरिफ मदों एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित टैरिफ मदों एवं प्रविष्टियों का अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
“6201	पुरुषों और लड़कों के ओवरकोट, कार कोट, घोगा, ऐनोरेक (जिनके अंतर्गत स्की जैकेटें भी शामिल हैं), विंड-चीटर, विंड जैकेट और ऐसी ही वस्तुएं उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6203 के अंतर्गत आती हैं					
620101	सूत के	नग	7%	37	2.2%	11.7
620102	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	35	2.1%	9.8
620103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
620104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	55	3.4%	26.8
620105	नोइल रेशम के	नग	7%	14	3.4%	6.8
620106	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
620107	अन्यों के	नग	7%	30	2.1%	9
6202	स्त्रियों और लड़कियों के ओवरकोट कर कोट, केप, घोगा, ऐनोरेक (जिनके अंतर्गत स्की जैकेटें भी शामिल हैं हैं), विंड-चीटर, विंड जैकेट और ऐसी ही वस्तुएं उनसे भिन्न जो शीर्ष सं. 6204 के अंतर्गत आती हैं					
620201	सूत के	नग	7%	37	2.2%	11.7
620202	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	35	2.1%	9.8
620203	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
620204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	55	3.4%	26.8
620205	नोइल रेशम के	नग	7%	14	3.4%	6.8
620206	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
620207	अन्यों के	नग	7%	30	2.1%	9
6203	पुरुषों और लड़कों के सूट, समाविष्ट, जैकेट्स ब्लेजर, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरआल, ब्रीच और निक्कर (तरण परिधान से भिन्न)					

620301	सूट, जॉकर, जैकेट ब्लेजर, ट्राउजर,					
62030101	सूट के	नग	7%	37	2.2%	11.7
62030102	सूट और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	35	2.1%	9.8
62030103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
62030104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	55	3.4%	26.8
62030105	नोइल रेशम के	नग	7%	14	3.4%	6.8
62030106	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
62030107	अन्यों के	नग	7%	30	2.1%	9
620302	अन्य					
62030201	सूट के	नग	7%	31	2.2%	9.8
62030202	सूट और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	32	2.1%	9
62030203	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
62030204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
62030205	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
62030206	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
62030207	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
6204	स्त्रियों या लड़कियों के सूट, समाविष्ट, जैकेट ब्लेजर, पोशाक, स्कर्ट, विब्रत स्कर्ट, ट्राउजर, विड और ब्रेस ओवरआल, ब्रीच और निकर (तरण परिधान से भिन्न)					
620401	सूट, समाविष्ट, जैकेट ब्लेजर, ट्राउजर,					
62040101	सूट के	नग	7%	37	2.2%	11.7
62040102	सूट और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	35	2.1%	9.8
62040103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
62040104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	55	3.4%	26.8
62040105	नोइल रेशम के	नग	7%	14	3.4%	6.8
62040106	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
62040107	अन्यों के	नग	7%	30	2.1%	9
620402	अन्य					
62040201	सूट के	नग	7%	31	2.2%	9.8
62040202	सूट और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	32	2.1%	9

62040203	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
62040204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
62040205	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
62040206	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
62040207	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
6205	पुरुषों या लड़कों की कमीजें					
620501	सूत के	नग	7%	34	2.2%	10.7
620502	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	33	2.1%	9.3
620503	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
620504	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
620505	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
620506	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
620507	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
6206	स्त्रियों या लड़कियों के ब्लाउज, कमीजें और कमीज-ब्लाउज					
620601	सूत के	नग	7%	34	2.2%	10.7
620602	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	33	2.1%	9.3
620603	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
620604	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
620605	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
620606	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
620607	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
6207	पुरुषों या लड़कों की कमीजें और अन्य बनियान, अंडरपैट, जांघिया, नाइट शर्ट और पाजामा, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और वैसे ही वस्तुएं					
620701	नाइट शर्ट, पाजामा, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन					
62070101	सूत के	नग	7%	23	2.2%	7.3
62070102	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	24	2.1%	6.8
62070103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	27	2.1%	7
62070104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9

62070105	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
62070106	ऊन के	नग	7%	30	2.7%	11.6
62070107	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
620702	अन्य					
62070201	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4
62070202	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
62070203	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.6
62070204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4
62070205	नोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
62070206	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.6
62070207	अन्यों के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7
6208	स्त्रियों या लड़कियों की कमीजें और अन्य बनियान, स्लिप, पेंटीकोट, जांघिया, पेंटीज, रात्रि पोशाक, पाजामा, नेप्लिजीज, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और वैसी ही वस्तुएं					
620801	नाइट शर्ट और पाजामा, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन					
62080101	सूत के	नग	7%	23	2.2%	7.3
62080102	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	24	2.1%	6.8
62080103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	27	2.1%	7
62080104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
62080105	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
62080106	ऊन के	नग	7%	30	2.7%	11.6
62080107	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
620802	अन्य					
62080201	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4
62080202	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
62080203	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.6
62080204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4
62080205	नोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
62080206	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.6
62080207	अन्यों के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7
6209	शिशु वस्त्र और कपड़ों के उपसाधन					
620901	सूत के	नग	7%	17	2.2%	5.4

620902	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	18	2.1%	5.1
620903	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	27	2.1%	7
620904	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	22	3.4%	10.7
620905	नोइल रेशम के	नग	7%	9	3.4%	4.4
620906	ऊन के	नग	7%	22	2.7%	8.5
620907	अन्यों के	नग	7%	17	2.1%	5.1
6210	शीर्ष सं. 5602, शीर्ष सं. 5603, शीर्ष सं. 5903, शीर्ष सं. 5906 या शीर्ष सं. 5907 के फैब्रिक से निर्मित वस्त्र					
621001	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4
621002	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
621003	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.6
621004	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4
621005	नोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
621006	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.6
621007	अन्यों के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7
6211	ट्रैक सूट, स्की सूट और तरण परिधान, अन्य वस्त्र					
621101	सूत के	नग	7%	23	2.2%	7.3
621102	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	25	2.1%	7
621103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	27	2.1%	7
621104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
621105	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
621106	ऊन के	नग	7%	30	2.7%	11.6
621107	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
6212	ब्रेजियर, गर्डल, कार्सेट, ब्रेस, सस्पेंडर, गार्टर और ऐसी ही वस्तुएं और उनके भाग, चाहे बुने या क्रो शियाकृत हैं या नहीं					
621201	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4
621202	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
621203	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.6
621204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4

	को छोड़ कर)					
621205	नोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
621206	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.6
621207	अन्यों के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7
6213	रूमाल					
621301	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4
621302	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
621303	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.6
621304	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4
621305	नोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
621306	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.6
621307	अन्यों के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7
6214	शाल, स्कार्फ, मफलर, ओढ़नी वेल और ऐसी ही वस्तुएं					
621401	शाल					
62140101	सूत के	नग	7%	30	2.2%	9.5
62140102	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	31	2.1%	8.7
62140103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	34	2.1%	8.9
62140104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	55	3.4%	26.8
62140105	नोइल रेशम के	नग	7%	14	3.4%	6.8
62140106	ऊन के	नग	7%	37	2.7%	14.3
62140107	अन्यों के	नग	7%	30	2.1%	9
621402	स्कार्फ और मफलर					
62140201	सूत के	नग	7%	23	2.2%	7.3
62140202	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	25	2.1%	7
62140203	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	27	2.1%	7
62140204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
62140205	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
62140206	ऊन के	नग	7%	30	2.7%	11.6
62140207	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
621403	अन्य					
62140301	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4
62140302	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
62140303	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.6

62140304	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4
62140305	नोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
62140306	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.6
62140307	अन्यों के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7
6215	टाइयाँ, बो टाइयाँ और कँसावट्स					
621501	टाइयाँ,					
62150101	सूत के	नग	7%	23	2.2%	7.3
62150102	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	नग	7.5%	24	2.1%	6.8
62150103	मानव निर्मित तंतु के	नग	8.1%	27	2.1%	7
62150104	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	नग	7%	43	3.4%	20.9
62150105	नोइल रेशम के	नग	7%	11	3.4%	5.4
62150106	ऊन के	नग	7%	30	2.7%	11.6
62150107	अन्यों के	नग	7%	23	2.1%	6.9
621502	अन्य					
62150201	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4
62150202	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
62150203	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.6
62150204	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4
62150205	नोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
62150206	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.6
62150207	अन्यों के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7
6216	दस्ताने, मिटन और मिह्स					
621601	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4
621602	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
621603	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.6
621604	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4
621605	नोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
621606	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.6
621607	अन्य के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7
6217	अन्य निर्मित कपड़ा उपसाधन, वस्त्रों के या कपड़ों के उपसाधनों के भाग, उनसे मिल्न जो शीर्ष सं. 6212 के हैं					
621701	सूत के	कि.ग्रा.	7%	49	2.2%	15.4

621702	सूत और मानव निर्मित तंतु के मिश्रण वाले	कि.ग्रा.	7.5%	52	2.1%	14.6
621703	मानव निर्मित तंतु के	कि.ग्रा.	8.1%	56	2.1%	14.6
621704	रेशम के (नोइल रेशम को छोड़ कर)	कि.ग्रा.	7%	217	3.4%	105.4
621705	नोइल रेशम के	कि.ग्रा.	7%	73	3.4%	35.5
621706	ऊन के	कि.ग्रा.	7%	61	2.7%	23.6
621707	अन्य के	कि.ग्रा.	7%	49	2.1%	14.7”;

(ग) अध्याय 83 में, टैरिफ मद संख्या 831001 के सामने कॉलम 4 और 5 में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः प्रविष्टि “12.5%” और “65” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(घ) अध्याय 84 में,-

(i) टैरिफ मद 841402 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मद तथा प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
“841403	साइकिल पम्प		11%		11%”;	

(ii) टैरिफ मद 843202 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदों तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
“843202	पिछला पहिया (स्टील से बना खड्डा का पहिया)	मी.ट.	8.6%	4300	2%	1000
843203	हैरो डिस्क/डिस्क ब्लेड (सादा)	मी.ट.	8.9%	5200	2%	1200
843204	हैरो डिस्क (दांतदार)	मी.ट.	9.9%	6100	2%	1200
843205	अन्य		1%	-	1%	-”;

(ड.) अध्याय 87 में, टैरिफ मद 8708043, 8708046 और 8708047 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. 609/54/2006-डीबीके]

डॉ. एम. सुब्रमण्यम, उप-सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 81/2006-सीमाशुल्क (गै.टै.) को दिनांक 13 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 420(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2006

No. 115/2006-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 720(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), sub-section (2A) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and sub-section 3 of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) and in pursuance of rule 3, 4 and 5 of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.81/2006-CUSTOMS (N.T.), dated the 13th July, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), with effect from 15th day of July, 2006, namely:-

(1) In the said notification, after paragraph 2 under the heading "Conditions", the following paragraph shall be inserted, namely: -

"2A. Notwithstanding anything contained in the said Schedule, all artware and handicraft items shall be classified under the heading of artware/handicraft (of constituent material) as mentioned in the relevant chapters."

(2) In the Schedule to the said notification, -

(a) In Chapter 61, for the tariff items and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"6101	Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103					
610101	Of Cotton	piece	7%	37	2.2%	11.7
610102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	35	2.1%	9.8
610103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
610104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	55	3.4%	26.8
610105	Of Noil Silk	piece	7%	14	3.4%	6.8
610106	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
610107	Of others	piece	7%	30	2.1%	9

6102	Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6104					
610201	Of Cotton	piece	7%	37	2.2%	11.7
610202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	35	2.1%	9.8
610203	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
610204	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	55	3.4%	26.8
610205	Of Noil Silk	piece	7%	14	3.4%	6.8
610206	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
610207	Of others	piece	7%	30	2.1%	9
6103	Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted					
610301	Suits, ensembles, jackets, blazers, trousers					
61030101	Of Cotton	piece	7%	37	2.2%	11.7
61030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	35	2.1%	9.8
61030103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
61030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	55	3.4%	26.8
61030105	Of Noil Silk	piece	7%	14	3.4%	6.8
61030106	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
61030107	Of others	piece	7%	30	2.1%	9
610302	Others					
61030201	Of Cotton	piece	7%	31	2.2%	9.8
61030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	32	2.1%	9
61030203	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
61030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
61030205	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
61030206	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
61030207	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9

6104	Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted					
610401	Suits, ensembles, jackets, blazers, trousers					
61040101	Of Cotton	piece	7%	37	2.2%	11.7
61040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	35	2.1%	9.8
61040103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
61040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	55	3.4%	26.8
61040105	Of Noil Silk	piece	7%	14	3.4%	6.8
61040106	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
61040107	Of others	piece	7%	30	2.1%	9
610402	Others					
61040201	Of Cotton	piece	7%	31	2.2%	9.8
61040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	32	2.1%	9
61040203	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
61040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
61040205	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
61040206	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
61040207	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
6105	Men's or boys' shirts, knitted or crocheted					
610501	Of Cotton	piece	7%	31	2.2%	9.8
610502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	32	2.1%	9
610503	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
610504	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
610505	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
610506	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
610507	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
6106	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted					
610601	Of Cotton	piece	7%	31	2.2%	9.8

610602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	32	2.1%	9
610603	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
610604	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
610605	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
610606	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
610607	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
6107	Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted					
610701	Night shirts, pyjamas, bath robes and dressing gowns, underpants and similar articles					
61070101	Of Cotton	piece	7%	23	2.2%	7.3
61070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	24	2.1%	6.8
61070103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	27	2.1%	7
61070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
61070105	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
61070106	Of Wool	piece	7%	30	2.7%	11.6
61070107	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
610702	Others (briefs and similar articles)					
61070201	Of Cotton	piece	7%	9	2.2%	2.9
61070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	10	2.1%	2.8
61070203	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	11	2.1%	2.9
61070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	37	3.4%	18
61070205	Of Noil Silk	piece	7%	13	3.4%	6.3
61070206	Of Wool	piece	7%	11	2.7%	4.3
61070207	Others	piece	7%	9	2.1%	2.7
6108	Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, night dresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted					
610801	Night dresses, pyjamas, negligees, bath robes, dressing gowns, slips,					

	petticoats and similar articles					
61080101	Of Cotton	piece	7%	23	2.2%	7.3
61080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	24	2.1%	6.8
61080103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	27	2.1%	7
61080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	21
61080105	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
61080106	Of Wool	piece	7%	30	2.7%	11.6
61080107	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
610802	Others (briefs, panties and similar articles)					
61080201	Of Cotton	piece	7%	9	2.2%	2.9
61080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	10	2.1%	2.8
61080203	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	11	2.1%	2.9
61080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	37	3.4%	18
61080205	Of Noil Silk	piece	7%	13	3.4%	6.4
61080206	Of Wool	piece	7%	11	2.7%	4.3
61080207	Others	piece	7%	9	2.1%	2.7
6109	T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted					
610901	Of Cotton	piece	7%	23	2.2%	7.3
610902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	24	2.1%	6.8
610903	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	27	2.1%	7
610904	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
610905	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
610906	Of Wool	piece	7%	30	2.7%	11.6
610907	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
6110	Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted					
611001	Of Cotton	piece	7%	53	2.2%	16.7
611002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	53	2.1%	14.8
611003	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	52	2.1%	13.5
611004	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	84	3.4%	40.8
611005	Of Noil Silk	piece	7%	21	3.4%	10.2
611006	Of Wool	piece	7%	63	2.7%	24.3

611007	Of others	piece	7%	53	2.1%	15.9
6111	Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted					
611101	Of Cotton	piece	7%	17	2.2%	5.3
611102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	18	2.1%	5
611103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	27	2.1%	7
611104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	22	3.4%	10.7
611105	Of Noil Silk	piece	7%	9	3.4%	4.4
611106	Of Wool	piece	7%	22	2.7%	8.5
611107	Others	piece	7%	17	2.1%	5.1
6112	Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted					
611201	Of Cotton	piece	7%	23	2.2%	7.2
611202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	25	2.1%	7
611203	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	27	2.1%	7
611204	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
611205	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.3
611206	Of Wool	piece	7%	30	2.7%	11.6
611207	Of others	piece	7%	23	2.1%	7
6113	Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading 5903, 5906 or 5907					
611301	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
611302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
611303	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.5
611304	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
611305	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
611306	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.5
611307	Others	KG	7%	49	2.1%	14.7
6114	Other garments, knitted or crocheted					
611401	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
611402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
611403	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.5

611404	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
611405	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
611406	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.5
611407	Others	KG	7%	49	2.1%	14.7
6115	Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stockings for varicose veins and footwear without applied soles, knitted or crocheted					
611501	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
611502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
611503	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.5
611504	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
611505	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
611506	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.5
611507	Others	KG	7%	49	2.1%	14.7
6116	Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted					
611601	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
611602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
611603	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.5
611604	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
611605	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
611606	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.5
611607	Others	KG	7%	49	2.1%	14.7
6117	Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories					
611701	Shawls					
61170101	Of Cotton	piece	7%	30	2.2%	9.4
61170102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	31	2.1%	8.7
61170103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.8
61170104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	55	3.4%	26.7
61170105	Of Noil Silk	piece	7%	14	3.4%	6.8

61170106	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
61170107	Of others	piece	7%	30	2.1%	9
611702	Scarves, mufflers and ties					
61170201	Of Cotton	piece	7%	23	2.2%	7.3
61170202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	24	2.1%	6.8
61170203	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	27	2.1%	7
61170204	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
61170205	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
61170206	Of Wool	piece	7%	30	2.7%	11.6
61170207	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
611703	Others					
611701	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
611702	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
611703	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.6
611704	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
611705	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
611706	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.6
611707	Others	KG	7%	49	2.1%	14.7”;

(b) in Chapter 62, for the tariff items and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
“6201	Men's or boys' overcoats, car-coats, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind jackets and similar articles other than those of heading 6203					
620101	Of Cotton	piece	7%	37	2.2%	11.7
620102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	35	2.1%	9.8
620103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
620104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	55	3.4%	26.8
620105	Of Noil Silk	piece	7%	14	3.4%	6.8
620106	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
620107	Of others	piece	7%	30	2.1%	9

6202	Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks(including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6204					
620201	Of Cotton	piece	7%	37	2.2%	11.7
620202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	35	2.1%	9.8
620203	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
620204	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	55	3.4%	26.8
620205	Of Noil Silk	piece	7%	14	3.4%	6.8
620206	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
620207	Of others	piece	7%	30	2.1%	9
6203	Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)					
620301	suits, ensembles, jackets,blazers, trousers					
62030101	Of Cotton	piece	7%	37	2.2%	11.7
62030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	35	2.1%	9.8
62030103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
62030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	55	3.4%	26.8
62030105	Of Noil Silk	piece	7%	14	3.4%	6.8
62030106	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
62030107	Of others	piece	7%	30	2.1%	9
620302	Others					
62030201	Of Cotton	piece	7%	31	2.2%	9.8
62030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	32	2.1%	9
62030203	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
62030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
62030205	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
62030206	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
62030207	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9

6204	Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)					
620401	Suits, ensembles, jackets, blazers, trousers					
62040101	Of Cotton	piece	7%	37	2.2%	11.7
62040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	35	2.1%	9.8
62040103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
62040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	55	3.4%	26.8
62040105	Of Noil Silk	piece	7%	14	3.4%	6.8
62040106	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
62040107	Of others	piece	7%	30	2.1%	9
620402	Others					
62040201	Of Cotton	piece	7%	31	2.2%	9.8
62040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	32	2.1%	9
62040203	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
62040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
62040205	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
62040206	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
62040207	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
6205	Men's or boys' shirts					
620501	Of Cotton	piece	7%	34	2.2%	10.7
620502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	33	2.1%	9.3
620503	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
620504	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
620505	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
620506	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
620507	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
6206	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses					
620601	Of Cotton	piece	7%	34	2.2%	10.7
620602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	33	2.1%	9.3
620603	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
620604	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9

620605	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
620606	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
620607	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
6207	Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles					
620701	Night shirts, pyjamas, bathrobes, dressing gown					
62070101	Of Cotton	piece	7%	23	2.2%	7.3
62070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	24	2.1%	6.8
62070103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	27	2.1%	7
62070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
62070105	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
62070106	Of Wool	piece	7%	30	2.7%	11.6
62070107	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
620702	Others					
62070201	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
62070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
62070203	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.6
62070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
62070205	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
62070206	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.6
62070207	Others	KG	7%	49	2.1%	14.7
6208	Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles					
620801	Night shirts, pyjamas, bathrobes, dressing gown					
62080101	Of Cotton	piece	7%	23	2.2%	7.3
62080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	24	2.1%	6.8
62080103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	27	2.1%	7
62080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
62080105	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4

62080106	Of Wool	piece	7%	30	2.7%	11.6
62080107	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
620802	Others					
62080201	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
62080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
62080203	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.6
62080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
62080205	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
62080206	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.6
62080207	Others	KG	7%	49	2.1%	14.7
6209	Babies' garments and clothing accessories					
620901	Of Cotton	piece	7%	17	2.2%	5.4
620902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	18	2.1%	5.1
620903	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	27	2.1%	7
620904	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	22	3.4%	10.7
620905	Of Noil Silk	piece	7%	9	3.4%	4.4
620906	Of Wool	piece	7%	22	2.7%	8.5
620907	Others	piece	7%	17	2.1%	5.1
6210	Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907					
621001	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
621002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
621003	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.6
621004	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
621005	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
621006	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.6
621007	Others	KG	7%	49	2.1%	14.7
6211	Track suits, ski suits and swimwear; other garments					
621101	Of Cotton	piece	7%	23	2.2%	7.3
621102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	25	2.1%	7
621103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	27	2.1%	7
621104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
621105	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
621106	Of Wool	piece	7%	30	2.7%	11.6

621107	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
6212	Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted					
621201	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
621202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
621203	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.6
621204	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
621205	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
621206	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.6
621207	Others	KG	7%	49	2.1%	14.7
6213	Handkerchiefs					
621301	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
621302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
621303	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.6
621304	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
621305	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
621306	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.6
621307	Others	KG	7%	49	2.1%	14.7
6214	Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like					
621401	Shawls					
62140101	Of Cotton	piece	7%	30	2.2%	9.5
62140102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	31	2.1%	8.7
62140103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	34	2.1%	8.9
62140104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	55	3.4%	26.8
62140105	Of Noil Silk	piece	7%	14	3.4%	6.8
62140106	Of Wool	piece	7%	37	2.7%	14.3
62140107	Of others	piece	7%	30	2.1%	9
621402	Scarves and mufers					
62140201	Of Cotton	piece	7%	23	2.2%	7.3
62140202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	25	2.1%	7
62140203	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	27	2.1%	7
62140204	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9

62140205	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
62140206	Of Wool	piece	7%	30	2.7%	11.6
62140207	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
621403	Others					
62140301	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
62140302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
62140303	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.6
62140304	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
62140305	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
62140306	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.6
62140307	Of Others	KG	7%	49	2.1%	14.7
6215	Ties, bow ties and caravats					
621501	Ties					
62150101	Of Cotton	piece	7%	23	2.2%	7.3
62150102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	piece	7.5%	24	2.1%	6.8
62150103	Of Man Made Fibres	piece	8.1%	27	2.1%	7
62150104	Of Silk (other than containing Noil silk)	piece	7%	43	3.4%	20.9
62150105	Of Noil Silk	piece	7%	11	3.4%	5.4
62150106	Of Wool	piece	7%	30	2.7%	11.6
62150107	Of others	piece	7%	23	2.1%	6.9
621502	Others					
62150201	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
62150202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
62150203	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.6
62150204	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
62150205	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
62150206	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.6
62150207	Others	KG	7%	49	2.1%	14.7
6216	Gloves, mittens and mitts					
621601	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
621602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
621603	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.6
621604	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
621605	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
621606	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.6
621607	Of others	KG	7%	49	2.1%	14.7

6217	Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212					
621701	Of Cotton	KG	7%	49	2.2%	15.4
621702	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	KG	7.5%	52	2.1%	14.6
621703	Of Man Made Fibres	KG	8.1%	56	2.1%	14.6
621704	Of Silk (other than containing Noil silk)	KG	7%	217	3.4%	105.4
621705	Of Noil Silk	KG	7%	73	3.4%	35.5
621706	Of Wool	KG	7%	61	2.7%	23.6
621707	Of others	KG	7%	49	2.1%	14.7";

(c) in Chapter 83, for the entries in columns 4 and 5 against tariff item 831001, the entries "12.5%" and "65" shall respectively be substituted;

(d) in Chapter 84,-

(i) after tariff item 841402 and the entries relating thereto, the following tariff item and the entries shall be inserted, namely,-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"841403	Bicycle pump		11%		11%";	

(ii) for tariff item 843202 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted namely :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"843202	Tail Wheel (Rubber Wheel made of steel)	MT	8.6%	4300	2%	1000
843203	Harrow Disc/Disc Blade (plain)	MT	8.9%	5200	2%	1200
843204	Harrow Disc(Notched)	MT	9.9%	6100	2%	1200
843205	Others		1%		1%";	

(e) in Chapter 87, tariff items 8708043, 8708046 and 8708047 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F.No. 609/54/2006-DBK]

Dr. M. SUBRAMANYAM, Dy. Secy.

Note: The principal notification No.81/2006-CUSTOMS (N.T.) was published in the Gazette of India vide number G.S.R.420(E), dated the 13th July, 2006.

3687 GF/06-5

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2006

सं. 116/2006-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 721(अ).-सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उप-धारा (2), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उपधारा (2) और सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 81/2006-सीमाशुल्क (गै.टै.), तारीख 13 जुलाई, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-

(1) उक्त अधिसूचना में, शीर्षक “शर्तों” के तहत पैराग्राफ 15 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘15क. अध्याय 54 और 55 में वस्त्र सामग्रियों के संबंध में “रजित” पद में “मुद्रित अथवा विरजित” को शामिल माना जाएगा’

(2) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(क) अध्याय 10 में, टैरिफ मद 10 के सामने कॉलम 4 में प्रविष्टि हेतु “1.075%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

(ख) अध्याय 48 में, टैरिफ मद 4823901805 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित टैरिफ मद तथा प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
“4823901 806	कुट्टी से बनी सजावटी हस्तशिल्प की वस्तुएं		5%		0.5%”;	

(ग) अध्याय 54 में,-

(i) टैरिफ मदों 540701, 540702, 540703, 540704, 540705 और 540706 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मदों तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
“540701	बुने हुए फैब्रिक जिसमें संश्लिष्ट फिलामेंट यार्न (ग्रे) भार के अनुसार 85 प्रतिशत या इससे अधिक हो	कि.ग्रा.	8%	22	3%	8.3

540702	बुने हुए फैब्रिक जिसमें संश्लिष्ट फिलामेंट यार्न (रंजित) भार के अनुसार 85 प्रतिशत या इससे अधिक हो	कि.ग्रा.	9%	26	3.5%	10.1
540703	बुने हुए फैब्रिक जिसमें मानव निर्मित फिलामेंट यार्न और मानव निर्मित स्टेपल फाइबर (ग्रे) भार के अनुसार 85 प्रतिशत या अधिक हो, -	कि.ग्रा.	8.5%	25	3%	8.8
540704	बुने हुए फैब्रिक जिसमें मानव निर्मित फिलामेंट यार्न और मानव निर्मित स्टेपल फाइबर (रंजित) भार के अनुसार 85 प्रतिशत या अधिक हो, -	कि.ग्रा.	10%	29	3.5%	10.2
540705	बुने हुए फैब्रिक जिसमें मानव निर्मित फिलामेंट यार्न और/अथवा मानव निर्मित स्टेपल फाइबर भार के अनुसार 85 प्रतिशत से कम हो (ग्रे)	कि.ग्रा.	7%	22	3%	9.4
540706	बुने हुए फैब्रिक जिसमें मानव निर्मित फिलामेंट यार्न और/अथवा मानव निर्मित स्टेपल फाइबर भार के अनुसार 85 प्रतिशत से कम हो (रंजित)	कि.ग्रा.	8%	25	3.5%	10.9";

(ii) टैरिफ मदों 540801, 540802, 540803, 540804, 540805 और 540806 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मदों तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"540801	बुने हुए फैब्रिक जिसमें कृत्रिम फिलामेंट यार्न भार के अनुसार 85 प्रतिशत या इससे अधिक हो (ग्रे)	कि.ग्रा.	8%	22	3%	8.3
540802	बुने हुए फैब्रिक जिसमें कृत्रिम फिलामेंट यार्न भार के अनुसार 85 प्रतिशत या इससे अधिक हो (रंजित)	कि.ग्रा.	9%	26	3.5%	10.1
540803	बुने हुए फैब्रिक जिसमें मानव निर्मित फिलामेंट यार्न और मानव निर्मित स्टेपल फाइबर भार के अनुसार 85 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो (ग्रे)	कि.ग्रा.	8.5%	25	3%	8.8

540804	बुने हुए फैब्रिक जिसमें मानव निर्मित फिलामेंट यार्न और मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर भार के अनुसार 85 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो (रंजित)	कि.ग्रा.	10%	29	3.5%	10.2
540805	बुने हुए फैब्रिक जिसमें मानव निर्मित फिलामेंट यार्न और/अथवा मानव निर्मित स्टेपल फाइबर भार के अनुसार 85 प्रतिशत से कम हो (ग्रे)	कि.ग्रा.	7%	22	3%	9.4
540806	बुने हुए फैब्रिक जिसमें मानव निर्मित फिलामेंट यार्न और/अथवा मानव निर्मित स्टेपल फाइबर भार के अनुसार 85 प्रतिशत से कम हो (रंजित)	कि.ग्रा.	8%	25	3.5%	10.9”;

(घ) अध्याय 55 में,-

(i) टैरिफ मदों 551501, 551502, 551503, 551504, 551505 और 551506 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मदों तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“551501	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर और मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (ग्रे), जो भार के अनुसार 85 प्रतिशत अथवा अधिक हो	कि.ग्रा.	8.5%	25	3%	8.8
551502	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर और मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (रंजित), जो भार के अनुसार 85 प्रतिशत अथवा अधिक हो	कि.ग्रा.	10%	29	3.5%	10.2
551503	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर और मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (ग्रे), जो भार के अनुसार 85 प्रतिशत से कम हो	कि.ग्रा.	7%	22	3%	9.4
551504	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर और मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (रंजित), जो भार के अनुसार 85 प्रतिशत से कम हो	कि.ग्रा.	8%	25	3.5%	10.9”;

(ii) टैरिफ मदों 551601, 551602, 551603, 551604, 551605 और 551606 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मदों तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"551601	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर और मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (ग्रे), जो भार के अनुसार 85 प्रतिशत अथवा अधिक हो	कि.ग्रा.	8.5%	25	3%	8.8
551602	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर और मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (रंजित), जो भार के अनुसार 85 प्रतिशत अथवा अधिक हो	कि.ग्रा.	10%	29	3.5%	10.2
551603	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर और मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (ग्रे), जो भार के अनुसार 85 प्रतिशत से कम हो	कि.ग्रा.	7%	22	3%	9.4
551604	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर और मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (रंजित), जो भार के अनुसार 85 प्रतिशत से कम हो	कि.ग्रा.	8%	25	3.5%	10.9";

(ड.) अध्याय 81 में, टैरिफ मदों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"8101	टंगस्टेन (बुल्क्रम) और उसकी वस्तुएं, जिनके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप नहीं है	कि.ग्रा.	2.5%	40	2.5%	40
8102	मालिब्डेनय और उसकी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप नहीं है	कि.ग्रा.	2.5%	104	2.5%	104
8103	टैंटलम और उनकी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप नहीं हैं	कि.ग्रा.	2.5%	94	2.5%	94
8104	मैंगनीशियम और उसकी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप नहीं हैं	कि.ग्रा.	2.5%	5.5	2.5%	5.5
8105	कोबाल्ट मेट और कोबाल्ट धात्विकी के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद, कोबाल्ट और उसकी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप नहीं हैं	कि.ग्रा.	2.5%	140	2.5%	140
8106	बिस्मथ और उसकी वस्तुएं, जिनके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप नहीं हैं	कि.ग्रा.	2.5%	24	2.5%	24

8107	कैडमियम और उसकी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप नहीं हैं	कि.ग्रा	2.5%	1.9	2.5%	1.9
8108	टिटेनियम और उसकी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप नहीं हैं	कि.ग्रा	2.5%	93	2.5%	93
8109	जर्कोनियम और उसकी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप नहीं हैं	कि.ग्रा	2.5%	3.4	2.5%	3.4
8110	ऐंटीमनी और उसकी वस्तुएं, अपशिष्ट और स्क्रेप को छोड़ कर	कि.ग्रा	2.5%	3	2.5%	3
8111	मैंगनीज और उसकी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप नहीं हैं	कि.ग्रा	2.5%	3.7	2.5%	3.7
8112	बेरीलियम, क्रोमियम, जर्मेनियम, वैनेडियम, गैलियम, हैफनियम, इंडियम, नायोबियम, (कोलम्बियम) नीनियम और थेलियम और इन धातुओं की वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप नहीं हैं		2.5%		2.5%	
8113	सर्मेट और उसकी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप नहीं हैं		2.5%		2.5%";	

[फा. सं. 609/54/2006-डीबीक]

डॉ. एम. सुब्रमण्यम, उप-सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 81/2006-सीमाशुल्क (गै.टै.) को दिनांक 13 जुलाई, 2006 की सा.का.नि. संख्या 420(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2006

No. 116/2006-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 721(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), sub-section (2) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) read with rule 3 and rule 4 of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.81/2006-CUSTOMS (N.T.), dated the 13th July, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), namely:-

(1) In the said notification, after paragraph 15 under the heading "Conditions", the following paragraph shall be inserted, namely: -

'15A. The term "dyed" in relation to textile materials in Chapters 54 and 55, shall include "printed or bleached".'

(2) In the Schedule to the said notification,-

(a) in Chapter 10, against tariff item 10, for the entry in column 4, the entry "1.075%" shall be substituted;

(b) in Chapter 48, after tariff item 4823901805 and the entries relating thereto, the following tariff item and the entries shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"4823901806	Decorative handicraft articles made of papier mache		5%		0.5%";	

(c) in Chapter 54,-

(i) for tariff items 540701, 540702, 540703, 540704, 540705 and 540706 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely:-

"540701	Woven fabrics containing 85% or more by weight of Synthetic Filament Yarn (Grey)	KG	8%	22	3%	8.3
540702	Woven fabrics containing 85% or more by weight of Synthetic Filament Yarn (Dyed)	KG	9%	26	3.5%	10.1
540703	Woven fabrics containing 85% or more by weight of Man-made Filament Yarn and Man-made Staple Fibre (Grey)	KG	8.5%	25	3%	8.8
540704	Woven fabrics containing 85% or more by weight of Man-made Filament Yarn and Man-made Staple Fibre (Dyed)	KG	10%	29	3.5%	10.2
540705	Woven fabrics containing less than 85% by weight of Man-made Filament Yarn and/or Man-made Staple Fibre (Grey)	KG	7%	22	3%	9.4

540706	Woven fabrics containing less than 85% by weight of Man-made Filament Yarn and/or Man-made Staple Fibre (Dyed)	KG	8%	25	3.5%	10.9";
--------	--	----	----	----	------	--------

(ii) for tariff items 540801, 540802, 540803, 540804, 540805 and 540806 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely:-

540801	Woven fabrics containing 85% or more by weight of artificial filament yarn (Grey)	KG	8%	22	3%	8.3
540802	Woven fabrics containing 85% or more by weight of artificial filament yarn (Dyed)	KG	9%	26	3.5%	10.1
540803	Woven fabrics containing 85% or more by weight of man-made filament yarn and man-made staple fibre (Grey)	KG	8.5%	25	3%	8.8
540804	Woven fabrics containing 85% or more by weight of man-made filament yarn and man-made staple fibre (Dyed)	KG	10%	29	3.5%	10.2
540805	Woven fabrics containing less than 85% by weight of man-made filament yarn and/or man-made staple fibre (Grey)	KG	7%	22	3%	9.4
540806	Woven fabrics containing less than 85% by weight of man-made filament yarn and/or man-made staple fibre (Dyed)	KG	8%	25	3.5%	10.9";

(d) in Chapter 55,-

(i) for tariff items 551501, 551502, 551503, 551504, 551505, and 551506 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely :-

"551501	Containing 85% or more by weight of Man-made Staple Fibre and Man-made Filament Yarn (Grey)	KG	8.5%	25	3%	8.8
551502	Containing 85% or more by weight of Man-made Staple Fibre and Man-made Filament Yarn (Dyed)	KG	10%	29	3.5%	10.2
551503	Containing less than 85% by weight of Man-made Staple Fibre and/or Man-made Filament Yarn (Grey)	KG	7%	22	3%	9.4
551504	Containing less than 85% by weight of Man-made Staple Fibre and/or Man-made Filament Yarn (Dyed)	KG	8%	25	3.5%	10.9";

(ii) for tariff items 551601, 551602, 551603, 551604, 551605 and 551606 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely:-

"551601	Containing 85% or more by weight of Man-made Staple Fibre and Man-made Filament Yarn (Grey)	KG	8.5%	25	3%	8.8
551602	Containing 85% or more by weight of Man-made Staple Fibre and Man-made Filament Yarn (Dyed)	KG	10%	29	3.5%	10.2
551603	Containing less than 85% by weight of Man-made Staple Fibre and/or Man-made Filament Yarn (Grey)	KG	7%	22	3%	9.4
551604	Containing less than 85% by weight Of Man-made Staple Fibre and/or Man-made Filament Yarn (Dyed)	KG	8%	25	3.5%	10.9";

(e) in chapter 81, for the tariff items and the entries relating thereto, following tariff items and the entries shall be substituted, namely:-

"8101	Tungsten (wolfram) and articles thereof, excluding waste and scrap	KG	2.5%	40	2.5%	40
-------	--	----	------	----	------	----

8102	Molybdenum and articles thereof, excluding waste and scrap	KG	2.5%	104	2.5%	104
8103	Tantalum and articles thereof, excluding waste and scrap	KG	2.5%	94	2.5%	94
8104	Magnesium and articles thereof, excluding waste and scrap	KG	2.5%	5.5	2.5%	5.5
8105	Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; cobalt and articles thereof, excluding waste and scrap	KG	2.5%	140	2.5%	140
8106	Bismuth and articles thereof, excluding waste and scrap	KG	2.5%	24	2.5%	24
8107	Cadmium and articles thereof, excluding waste and scrap	KG	2.5%	1.9	2.5%	1.9
8108	Titanium and articles thereof, excluding waste and scrap	KG	2.5%	93	2.5%	93
8109	Zirconium and articles thereof, excluding waste and scrap	KG	2.5%	3.4	2.5%	3.4
8110	Antimony and articles thereof, excluding waste and scrap	KG	2.5%	3	2.5%	3
8111	Manganese and articles thereof, excluding waste and scrap	KG	2.5%	3.7	2.5%	3.7
8112	Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium and thallium, and articles of these metals, excluding waste and scrap		2.5%		2.5%	
8113	Cermets and articles thereof, excluding waste and scrap		2.5%		2.5% ² ;	

[F. No. 609/54/2006-DBK]

Dr. M. SUBRAMANYAM, Dy. Secy.

Note: The principal notification No.81/2006-CUSTOMS (N.T.) was published in the Gazette of India vide number G.S.R.420(E), dated the 13th July, 2006.